

जारवा जनजात से संबंधित वीडियो फिल्म के मामले में होगी कार्रवाई

चर्चा में क्यों?

- वदिति हो का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजात आयोग (एनसीएसटी) ने यू-ट्यूब सोशल मीडिया मंच पर अंडमान द्वीप समूह की जारवा और अन्य संरक्षित जनजातियों की आपत्तजनक वीडियो फिल्मों और तस्वीरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इन पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
- आयोग ने यू-ट्यूब से इन आपत्तजनक वीडियो फिल्मों को हटाने तथा इन वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया मंच पर अपलोड करने वालों पर कार्रवाई शुरू करने के लिये इस मामले को गृह मंत्रालय, वदिश मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के समक्ष उठाने का फैसला किया है।
- उल्लेखनीय है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप (आदिम जनजात संरक्षण) कानून, 1956 के अनुसार अंडमानज़ि, ऑग्स, सेंटनिलज़ि, निकोबारज़ि और शोम पैंस की पहचान 'आदिम जनजातियों' के रूप में की गई है और इसमें इन समुदायों को बाहरी हस्तक्षेप से संरक्षित किये जाने का प्रावधान है।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की कुल आबादी लगभग 28077 है। इनमें से पाँच जनजातीय समुदायों की तादाद 500 से भी कम है।

जारवा जनजात से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

- जारवा जनजात भिन्न सभ्यता की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जो पछिले कई वर्षों से भारत के केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर रह रही है। यह चिंताजनक है कि आज इस समुदायके 400 से भी कम सदस्य बचे हैं।
- जारवा जनजातके संरक्षण के लिये दिसंबर 2004 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय और अंडमान निकोबार प्रशासन के साथ मिलकर एक नीति बनाई थी।
- जंगल से मलिन वाली तमाम परंपरागत चीज़ों के संरक्षण में जारवा समुदाय की अहम भूमिका को देखते हुए उनके रज़िर्व क्षेत्र को 847 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 1028 वर्ग किलोमीटर किया गया।
- जारवा लोगों को शिकार करने के लिये एक नश्चित क्षेत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समुद्र तटीय इलाकों में भी 'ट्राइबल रज़िर्व बेल्ट' बनाया गया।
- इसके अलावा रज़िर्व के बाहर पाँच किलोमीटर का एक बफर जोन बनाया गया, जिससे उन्हें यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचने वाले पर्यटकों और व्यावसायिक गतिविधियों से अछूता रखा जा सके।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ग्रेट अंडमानीज़, ऑगो, सेंटनिलीज़ और शौम्पेन जैसे संख्या में बेहद कम हो चुके संकटग्रस्त जनजातीय समूह के लोग भी रहते हैं।